



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 1977/आषाढ़ 22, 1899

No. 304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 1977/ASADHA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th July 1977

S.O. 557(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely —

1. This order may be called the Imports (Control) 5th Amendment Order, 1977.
2. In the Imports (Control) Order, 1955—Sub-Clause 11(2)(1) shall be substituted by the following —

“(1) scientific instruments, equipments, apparatus and appliances, whether electronics or electrically operated or otherwise, replacement parts thereof and components, required for construction of scientific instruments, equipments, apparatus and appliances, whether electronics or electrically operated or otherwise by technical and research institutions, or Government research and analytical laboratories including colleges and other institutions not covered by sub-clause 11(2)(e) of the order, technical and educational institutions recognised by the University Grants Commission/Ministry of Education, including engineering, medical and agricultural colleges, both Government and private for their own use, upto C.I.F. value not exceeding Rs. 25,000/- in a financial year. The importer shall give a declaration to the customs at the time of clearance, indicating the C.I.F. value of such goods already imported in the same year”

[No. 16/77]

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य संचालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1977

का० आ० 557 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955, में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) 5 संशोधन आदेश—1977 की संज्ञा दी जाए।
2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उपधारा 11(2)(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(1) तकनीकी और अनुसंधान संस्थाओं या [सरकारी] अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रयोगशालाओं जिनमें कालेज और अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं जो इस आदेश की उपधारा (11) (2) (इ) के अधीन नहीं आती हैं, सरकारी एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग, चिकित्सा एवं कृषि कालेजों सहित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक औजार, उपकरण, उपस्कर और पत्र चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक्स से या बिजली से या अन्यथा रूप से परिचालित हों, के निर्माण के लिए अपेक्षित प्रतिस्थापन पुर्जों और सघटक एक वित्तीय वर्ष में उसके उपयोग के लिए अधिकतम 25,000/- रुपए लागत बीमा भाड़ा मूल्य तक आयात किया जा सकता है। आयातक को चाहिए कि उसी वर्ष में ऐसे माल का जो आयात पहले ही किया गया हो उसके लागत बीमा भाड़ा मूल्य का संकेत करते हुए माल की निकासी के समय सीमाशुल्क को एक घोषणा पत्र देना चाहिए।”

[सं० 16/77]

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977